



प्रेस नोट थाना गजरौला

दिनांक 23.04.2021

थाना गजरौला क्षेत्र में हुई सनसनीखेज मर्डर की घटना का 24 घंटे में खुलासा कर हत्यारोपी मृतक की पत्नी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 21/22-04-2021 की रात्रि में थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत नेशनल हाईवे किनारे स्थित मकान में रामप्रसाद पुत्र हुकम सिंह निवासी नाईपुरा खादर उम्र करीब 53 वर्ष की रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक की मां श्रीमती कैलासो देवी द्वारा मृतक की पत्नी श्रीमती गुड्डी व दामाद लव कुश के विरुद्ध अपने बेटे राम प्रसाद की हत्या करने के संबंध में थाना गजरौला पर मु0अ0स0 266/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला को उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 23.04.2021 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में नामजद अभियुक्त श्रीमती गुड्डी पत्नी राम प्रसाद निवासी मौहल्ला बुध नगर नाईपुरा कस्बा गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

पुछताछ विवरण:-

यह तथ्य प्रकाश में आये कि रामप्रसाद की तीन बेटी व एक बेटा है जिसमे अपनी दो बेटियों की शादी राम प्रसाद द्वारा करायी गई व छोटी बेटी शीतल ने लव कुश पुत्र रज्जो उर्फ राजन निवासी ग्राम भीडरी थाना अछनेरा जनपद आगरा के साथ प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से शीतल के पिता मृतक राम प्रसाद व अन्य परिवारीजन संतुष्ट नहीं थे क्योंकि लव कुश पूर्व में अपने गांव में श्रीमती ओमवती की हत्या के मामले में जेल जा चुका था। मृतक रामप्रसाद अपने मकान को अपने पुत्र शोभित को देना चाहता था लेकिन मृतक की पत्नी श्रीमती गुड्डी इस मकान में हिस्सा लव कुश को भी देना चाहती थी। इसी बात को लेकर कई बार राम प्रसाद व उसकी पत्नी में विवाद हुआ तथा लव कुश ने भी इसी विवाद के मध्य कई बार शोभित व रामप्रसाद के साथ मारपीट की थी।

दिनांक 21/22-04-2021 की रात्रि को योजनाबद्ध तरीके से श्रीमती गुड्डी ने अपने दामाद लव कुश को आगरा से बुलवाकर अंगोछे से अपने पति राम प्रसाद की हत्या करा दी। अभियुक्त लव कुश रात्रि में ही आगरा से गजरौला मौहल्ला नाईपुरा आया और अपनी सास के साथ मिलकर अपने ससुर रामप्रसाद की अंगोछे से गला दबाकर हत्या कर दी और

वापिस आगरा चला गया । फरार अभियुक्त लव-कुश की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. श्रीमती गुड्डी पत्नी राम प्रसाद निवासी मौहल्ला बुध नगर नाईपुरा कस्बा गजरौला जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम प्रसाद शर्मा थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. वरि०उ०नि० श्री प्रमोद पाठक थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. उ०नि० श्रीमती श्वेता त्यागी थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. मय हमराह पुलिस बल ।

